



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 1 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 786/आठ-3-20-158 विविध-2018

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ10-234

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 334/आठ-3-19-158 विविध/2018 दिनांक 25 मार्च, 2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश भू सम्पदा अपील अधिकरण का कार्यालय (पुराना लखनऊ विकास प्राधिकरण) 6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ से इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।